

[This question paper contains 8 printed pages.]

यह प्रश्न 8 मुद्रित पृष्ठों का है।

Your Roll No.....

आपका अनुक्रमांक.....

Sr. No. of Question Paper : 15199

Unique Paper Code : 2272102402

L

Name of the Paper : Intermediate Macroeconomics II : Policy Issues

Type of the Paper : DSC

Semester : IV

Programme : ITEP

Duration: 3 Hours

Maximum Marks: 90

समयावधि: 3 घंटे

पूर्णांक: 90

Important Instructions/ महत्वपूर्ण निर्देश:

- Write your Roll No. on the top immediately on the receipt of the question paper
इस प्रश्न पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए
- Answers may be written either in Hindi or English, but the same medium should be followed throughout the paper.
उत्तर हिंदी या अंग्रेजी में लिखे जा सकते हैं, लेकिन पूरे पेपर में एक ही माध्यम का उपयोग किया जाना चाहिए।
- The use of scientific calculator is allowed.

Instructions:

1. Section A is compulsory. Write ONLY the correct option. Do NOT provide explanations.
2. Section B: Attempt any six out of eight questions.
3. Section C: Attempt any three out of four questions.

Section-A (15 × 2 = 30 marks)

1. In the IS-PC-MR model, if the central bank increases its 'Inflation Target,' the MR curve will shift:
(A) Left
(B) Right
(C) Unchanged
(D) Vertical

P.T.O.

IS-PC-MR मॉडल में, यदि केंद्रीय बैंक अपने 'मुद्रास्फीति लक्ष्य' (Inflation Target) को बढ़ाता है, तो MR वक्र खिसकेगा:

- (A) बाएँ
- (B) दाएँ
- (C) अपरिवर्तित
- (D) लंबवत

2. According to Ricardian Equivalence, a debt-financed tax cut is:

- (A) Increase in wealth
- (B) Offset by private savings
- (C) Only for liquidity traps
- (D) Causes massive consumption

रिकार्डियन तुल्यता (Ricardian Equivalence) के अनुसार, ऋण-वित्तपोषित कर कटौती है:

- (A) धन में वृद्धि
- (B) निजी बचत द्वारा संतुलित (Offset)
- (C) केवल तरलता जाल (Liquidity traps) के लिए
- (D) बड़े पैमाने पर उपभोग का कारण

3. A 'Haircut' in financial markets refers to:

- (A) Interest rate reduction
- (B) Reduction in collateral value
- (C) Withdrawal tax
- (D) Closing a branch

वित्तीय बाजारों में 'हेयरकट' (Haircut) का तात्पर्य है:

- (A) ब्याज दर में कमी
- (B) गिरवी रखी संपत्ति (Collateral) के मूल्य में कमी
- (C) निकासी कर
- (D) शाखा बंद करना

4. Under FIXED exchange rates and perfect capital mobility, expansionary Fiscal Policy is:
- (A) Ineffective
 - (B) Effective as money supply expands
 - (C) Decreases money supply
 - (D) Causes depreciation

स्थिर विनिमय दर और पूर्ण पूंजी गतिशीलता के तहत, विस्तारवादी राजकोषीय नीति होती है:

- (A) अप्रभावी
- (B) प्रभावी क्योंकि मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है
- (C) मुद्रा आपूर्ति को कम करती है
- (D) मूल्यहास (Depreciation) का कारण बनती है

5. The 'Time Inconsistency' problem implies:

- (A) Full discretion
- (B) Policies may not be credible
- (C) Inflation is unpredictable
- (D) Growth is independent of time

'समय असंगति' (Time Inconsistency) की समस्या का तात्पर्य है:

- (A) पूर्ण विवेक
- (B) नीतियां विश्वसनीय नहीं हो सकतीं
- (C) मुद्रास्फीति अप्रत्याशित है
- (D) विकास समय से स्वतंत्र है

6. Dornbusch's Overshooting Model assumes:

- (A) Flexible short-run prices
- (B) Full employment
- (C) Sticky short-run prices
- (D) Immobile capital

डॉर्नबश का ओवरशूटिंग मॉडल (Dornbusch's Overshooting Model) क्या मानता है?

- (A) अल्पावधि में लचीली कीमतें
- (B) पूर्ण रोजगार
- (C) अल्पावधि में चिपचिपी (Sticky) कीमतें
- (D) गतिहीन पूंजी

7. Relative PPP states the exchange rate change equals:

- (A) Sum of inflation
- (B) Difference in inflation
- (C) Real GDP growth
- (D) Interest differential

सापेक्ष PPP (Relative PPP) के अनुसार विनिमय दर में परिवर्तन किसके बराबर होता है?

- (A) मुद्रास्फीति का योग
- (B) मुद्रास्फीति में अंतर
- (C) वास्तविक GDP वृद्धि
- (D) ब्याज अंतर

8. In a 'Liquidity Trap,' the LM curve is:

- (A) Upward sloping
- (B) Vertical
- (C) Perfectly horizontal
- (D) Downward sloping

'तरलता जाल' (Liquidity Trap) में, LM वक्र होता है:

- (A) ऊपर की ओर झुका हुआ
- (B) लंबवत
- (C) पूर्णतः क्षैतिज
- (D) नीचे की ओर झुका हुआ

9. Absolute Purchasing Power Parity (PPP) implies that:
- (A) Nominal interest rates are equalized globally.
 - (B) The price level in two countries must be equal when expressed in a common currency.
 - (C) High-inflation countries always have appreciating currencies.
 - (D) Trade balances are always in equilibrium.

पूर्ण क्रय शक्ति समता (Absolute Purchasing Power Parity) का तात्पर्य है कि:

- (A) नाममात्र ब्याज दरें विश्व स्तर पर समान होती हैं।
- (B) दो देशों में कीमत स्तर समान मुद्रा में व्यक्त किए जाने पर बराबर होना चाहिए।
- (C) उच्च मद्रास्फीति वाले देशों की मद्रा हमेशा मजबूत होती है।

10. Seigniorage is revenue earned from:

- (A) Income taxes
- (B) Dividends
- (C) Printing money
- (D) Foreign reserves

सेग्नियरेज (Seigniorage) किससे अर्जित राजस्व है?

- (A) आयकर
- (B) लाभांश
- (C) मुद्रा छापने से
- (D) विदेशी मुद्रा भंडार

11. In an open economy, "Perfect Capital Mobility" means:

- (A) Governments can restrict all capital flows.
- (B) Investors can purchase assets in any country without transaction costs or restrictions.
- (C) Domestic and foreign interest rates are never related.
- (D) Only physical goods can move across borders.

एक खुली अर्थव्यवस्था में, "पूर्ण पूंजी गतिशीलता" (Perfect Capital Mobility) का अर्थ है:

- (A) सरकारें सभी पूंजी प्रवाह को प्रतिबंधित कर सकती हैं।
- (B) निवेशक बिना किसी लेनदेन लागत या प्रतिबंध के किसी भी देश में संपत्ति खरीद सकते हैं।
- (C) घरेलू और विदेशी ब्याज दरें कभी संबंधित नहीं होती हैं।
- (D) केवल भौतिक वस्तुएं ही सीमाओं के पार जा सकती हैं।

12. The 'Monetary Approach' to BOP suggests a deficit is caused by:

- (A) Government spending
- (B) Excess money supply
- (C) High tariffs
- (D) Low interest

BOP के 'मौद्रिक दृष्टिकोण' (Monetary Approach) के अनुसार घाटा किसके कारण होता है?

- (A) सरकारी खर्च
- (B) अत्यधिक मुद्रा आपूर्ति
- (C) उच्च टैरिफ
- (D) कम ब्याज

13. Rules in monetary policy help:

- (A) Increase political power
- (B) Secret changes
- (C) Solve time inconsistency
- (D) Zero deficit

मौद्रिक नीति में 'नियम' (Rules) मदद करते हैं:

- (A) राजनीतिक शक्ति बढ़ाने में
- (B) गुप्त परिवर्तन करने में
- (C) समय असंगति को हल करने में
- (D) शून्य घाटे में

14. In the Asset Market Approach, the exchange rate is:

- (A) Price of goods
- (B) The price of a financial asset
- (C) Constant
- (D) Changes every 10 years

14. In the Asset Market Approach, the exchange rate is:

- (A) Price of goods
- (B) The price of a financial asset
- (C) Constant
- (D) Changes every 10 years

परिसंपत्ति बाज़ार दृष्टिकोण (Asset Market Approach) में, विनिमय दर क्या है?

- (A) वस्तुओं की कीमत
- (B) एक वित्तीय परिसंपत्ति की कीमत
- (C) स्थिर
- (D) हर 10 साल में बदलती है

15. A 'Primary Surplus' occurs when:

- (A) Revenue > Total Spending
- (B) Revenue > Spending excluding interest
- (C) Central Bank prints money
- (D) Positive net exports

'प्राथमिक अधिशेष' (Primary Surplus) तब होता है जब:

- (A) राजस्व > कुल खर्च
- (B) राजस्व > ब्याज को छोड़कर खर्च
- (C) केंद्रीय बैंक पैसा छापता है
- (D) सकारात्मक शुद्ध निर्यात

Section-B (6 × 5 = 30 marks)

1. Explain the three-equation (IS-PC-MR) model of monetary policy.
मौद्रिक नीति के तीन-समीकरण (IS-PC-MR) मॉडल की व्याख्या करें।
2. Discuss the reasons why Ricardian Equivalence may not hold in practice.
उन कारणों पर चर्चा करें जिनकी वजह से व्यवहार में रिकार्डियन तुल्यता लागू नहीं हो पाती है।
3. Explain the concept of "Leverage" and its role in a financial crisis.
"उत्तोलन" (Leverage) की अवधारणा और वित्तीय संकट में इसकी भूमिका को स्पष्ट करें।
4. Differentiate between Absolute Purchase Power Parity (PPP) and Relative (PPP).
पूर्ण क्रय शक्ति समता और सापेक्ष क्रय शक्ति समता के बीच अंतर स्पष्ट करें।
5. Show the effect of expansionary Monetary Policy under flexible exchange rates and perfect capital mobility.
लचीली विनिमय दरों और पूर्ण पूंजी गतिशीलता के तहत विस्तारवादी मौद्रिक नीति के प्रभाव को दर्शाएं।

6. Briefly describe the 'J-Curve' effect.
संक्षेप में "जे-वक्र" (J-Curve) प्रभाव का वर्णन करें।
7. What are the advantages of 'Inflation Targeting' as a monetary policy framework?
मौद्रिक नीति ढांचे के रूप में 'मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण' (Inflation Targeting) के क्या लाभ हैं?
8. Explain the "Asset Market Approach" to exchange rates.
विनिमय दरों के "परिसंपत्ति बाज़ार दृष्टिकोण" की व्याख्या करें।

Section-C (3 × 10 = 30 marks)

1. Using the IS-PC-MR model, analyze how a Central Bank responds to a permanent supply-side shock.
IS-PC-MR मॉडल, का उपयोग करते हुए विश्लेषण करें कि एक केंद्रीय बैंक स्थायी आपूर्ति-पक्षीय झटके (Permanent supply-side shock) पर कैसी प्रतिक्रिया देता है।
2. Using the Blanchard and Johnson framework, analyze the 2008 global financial crisis. Focus on the roles of leverage, falling house prices, and the liquidity trap.
ब्लैंचर्ड और जॉनसन ढांचे का उपयोग करते हुए 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट का विश्लेषण करें। उत्तोलन (Leverage), गिरती आवास कीमतों और तरलता जाल की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करें।
3. Critically evaluate Dornbusch's Overshooting Model.
डॉर्नबश के ओवरशूटिंग मॉडल का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।
4. Compare the effectiveness of Fiscal and Monetary policies under Fixed vs. Flexible exchange rate regimes with perfect capital mobility.
पूर्ण पूंजी गतिशीलता के साथ स्थिर बनाम लचीली विनिमय दर व्यवस्था के तहत राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों की प्रभावशीलता की तुलना करें।